

आईएसजी मैनेजमेंट की सामूहिक कार्रवाई

Mutch बनाम आईएसजी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड

समूह के सदस्यों के लिए खास जानकारी

ऑस्ट्रेलियाई संघीय न्यायालय ने Shine Lawyers को अनुमति दी है, ताकि इन अहम जानकारी के बारे में आपसे बातचीत करने के लिए आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर सकें:

- आईएसजीएम का परिसमापन और सामूहिक कार्रवाई पर इसका प्रभाव
- परिसमापन प्रक्रिया के माध्यम से आपके संभावित विशेषाधिकार
- पात्र होने पर, राष्ट्रमंडल सरकार की एफईजी योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी संभावित पात्रता
- Shine Lawyers किस तरह से आपकी सहायता कर सकते हैं
- आपके लिए उपलब्ध वैकल्पिक विकल्प।

अगर इस नोटिस के संबंध में आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या संबंधित फ़ॉर्म को पूरा करने के संबंध में कोई सहायता चाहिए, तो कृपया हमारे आईएसजीएम क्लास एक्शन टीम से **1800 325 172** पर संपर्क करें या isgmlegal@shine.com.au पर ईमेल करें।

आईएसजीएम का परिसमापन और सामूहिक कार्रवाई पर इसका प्रभाव

1. 1 जुलाई, 2021 को आईएसजीएम, इसकी मूल कंपनी Tandem कॉर्पोरेशन और कई संबंधित कंपनियों को स्वेच्छा से निदेशकों द्वारा प्रबंधित किया गया था।
2. स्वैच्छिक प्रशासन के परिणामस्वरूप, 7 जुलाई 2021 को ऑस्ट्रेलिया के संघीय न्यायालय ने सामूहिक कार्रवाई की सुनवाई की तैयारी के लिए इन अदालती आदेशों पर रोक लगाने का आदेश दिया।
3. 29 जुलाई 2021 को प्रशासकों ने लेनदारों की पहली बैठक की और उनकी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में आईएसजीएम मामलों के प्रारंभिक प्रबंधन के निष्कर्षों के साथ-साथ आईएसजीएम उधारदाताओं के लिए उपलब्ध विकल्पों की रूपरेखा तैयार की गई है। रिपोर्ट की प्रति और अन्य सामग्री <https://www.mcgrathnicol.com/creditors/tandem-group> वेबसाइट के ज़रिए एक्सेस की जा सकती है।
4. 5 अगस्त 2021 को प्रशासकों ने लेनदारों की दूसरी बैठक आयोजित की। बैठक में, लेनदारों का एक वोट हुआ, जिसके परिणामस्वरूप आईएसजीएम सहित संबंधित कंपनियों का परिसमापन हुआ (जिसका मतलब है कि उनकी संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए "इस्तेमाल" की जाएगी और कंपनी "बंद" हो जाएगी)। McGrathNicol के Matthew Caddy और Keith Crawford को संयुक्त और कई परिसमापक के तौर पर नियुक्त किया गया था।

- 5 नवंबर 2021 को परिसमापक ने लेनदारों को अपनी वैधानिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का उद्देश्य लेनदारों को परिसमापन की प्रगति पर जानकारी मुहैया कराना और परिसमापन में संभावित लाभांश भुगतान करने पर सलाह देना है। रिपोर्ट की प्रति और अन्य सामग्री <https://www.mcgrathnicol.com/creditors/tandem-group> वेबसाइट के ज़रिए एक्सेस की जा सकती है।

परिसमापन प्रक्रिया के माध्यम से संभावित समूह सदस्य के अधिकार

6. आईएसजीएम क्लास एक्शन में एक समूह के सदस्य के तौर पर, आपको एक लेनदार माना जाता है और आपके पास परिसमापक को अपना दावा दायर करने का अवसर होता है, ताकि परिसमापकों द्वारा किए जाने वाले सभी भुगतान के वितरण पर विचार किया जा सके।
7. ISGM के परिसमापक द्वारा दावे पर विचार करने के लिए, आपको प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, ताकि आप अपने दावे की पुष्टि कर सकें। ऋण का प्रमाण प्रस्तुत करके, आप परिसमापक को अपने दावे से अवगत कराएंगे, और जानकारी और अपडेट पाने के हकदार होंगे, जिसमें कंपनी के मामलों, परिसमापन की प्रगति और लेनदारों के लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में रिपोर्ट शामिल हैं।

उचित पात्रता गारंटी (एफईजी) योजना के लिए संभावित हकदारी

8. उपरोक्त ऋण दावे के प्रमाण के अलावा, Shine Lawyers राष्ट्रमंडल सरकार की उचित पात्रता (एफईजी) योजना के लिए आवेदन करने पर भी विचार कर रहे हैं।
9. एफईजी योजना उन पात्र कर्मचारियों को अवैतनिक रोजगार पात्रता को कवर करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराती है जो अपने नियोक्ता के परिसमापन या दिवालियापन के कारण अपनी नौकरी खो देते हैं।
10. समूह के सदस्य के तौर पर, अगर आपने **1 जनवरी 2021 और 30 जून 2021 के बीच** आईएसजीएम को सेवाएं मुहैया कराई है, तो आप एफईजी योजना का लाभ उठा सकते हैं।

SHINE LAWYERS किस तरह से आपकी सहायता कर सकते हैं

11. Shine Lawyers परिसमापन प्रक्रिया में आपका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। साथ ही, एफईजी योजना आवेदन (अगर पात्र हो) को पूरा करने में आपकी सहायता कर सकते हैं।
12. जैसा कि ऊपर बताया गया है, अगर आप ऊपर उल्लिखित पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं, तो वित्तीय सहायता के लिए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि आप अवैतनिक रोजगार पात्रता को कवर कर सकें। एफईजी आवेदन प्रक्रिया के लिए यह भी ज़रूरी है कि आवेदक कुछ शर्तों को पूरा करें, अनिवार्य जानकारी और दस्तावेज दाखिल करें। साथ ही, आवेदन दर्ज करने से पहले खास कदम उठाएं। Shine Lawyers इस प्रक्रिया में आपकी निःशुल्क सहायता कर सकते हैं।
13. अगर एफईजी और/या परिसमापक समूह के सदस्यों के दावों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम समूह के सदस्यों की ओर से उस निर्णय को उच्च न्यायालय में अपील करने का फैसला ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तो हम उस समय कानूनी लागतों के संबंध में एक कमाई अनुबंध और संभवतः आपके साथ एक वित्तपोषण समझौता करने की पेशकश कर सकते हैं। ऐसा तब

होता है जब आपको कर्ज के सबूत और/या एफईजी दावे पर अदालत का फैसला मिलता है। हम आपको इसके बारे में उचित समय पर सलाह देंगे।

14. अगर आप चाहते हैं कि Shine Lawyers ऋण और FEG दावे का प्रमाण प्रस्तुत करने में आपकी अभी सहायता करें, तो कृपया हमारी वेबसाइट <https://SGMclassaction.shine.com.au/Registration> पर जाएं और इलेक्ट्रॉनिक रूप से नीचे दी गई चीजों को पूरा करें:
 - a. संक्षिप्त प्रश्नावली हमें उन दावों की गणना करने की अनुमति देता है जिन्हें आप अपने ऋण प्रमाण में सम्मिलित करना चाहते हैं और यह तय करती है कि क्या आप एफईजी योजना का लाभ उठाने में सक्षम हैं; और
 - b. प्राधिकरण फॉर्म पूरा करके आप Shine Lawyers को परिसमापन प्रक्रिया में आपका प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देते हैं और एफईजी योजना आवेदन (यदि पात्र हो) में आपकी सहायता करते हैं।
15. उपरोक्त प्रपत्रों को भरकर आप किसी भी लागत और शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इसे आप <https://SGMclassaction.shine.com.au/Registration> के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं।
16. हम चाहते हैं कि आप **बुधवार, 15 दिसंबर 2021** तक प्रश्नावली और प्राधिकरण फॉर्म को पूरा करें।

आपके लिए उपलब्ध वैकल्पिक विकल्प हैं

17. उपरोक्त के विकल्प के तौर पर, आपके पास यह विकल्प है:
 - a. परिसमापक को ऋण का प्रमाण दाखिल करने या एफईजी योजना का लाभ उठाने के लिए कानूनी सहायता पाने के बारे में चर्चा करने के लिए एक स्वतंत्र वकील से बातचीत करें;
 - b. ऋण प्रमाण फॉर्म की एक प्रति पाने के लिए सीधे परिसमापक से संपर्क करें जिसे आप बिना कानूनी सहायता के पूरा कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं; तथा
 - c. पात्र होने पर, कानूनी सहायता के बिना, एफईजी योजना का लाभ पाने के लिए आपको अटॉर्नी-जनरल डिपार्टमेंट में एक आवेदन जमा करना होगा।

क्या मैं कुछ नहीं कर सकता?

18. आपके पास कुछ न करने का भी विकल्प है। अगर आप इस विकल्प को चुनते हैं, तो आपके दावे पर परिसमापक द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही, आपको किसी भी दावे के लिए भुगतान नहीं मिलेगा जिसके आप हकदार हो सकते हैं। इसके अलावा, अगर आप एफईजी योजना (अगर पात्र हैं) का लाभ उठाने के लिए आवेदन जमा नहीं करने का विकल्प चुनते हैं, तो आप इसके हकदार नहीं होंगे।
19. अगर आप कुछ नहीं करते हैं, तो आपको किसी भी नकारात्मक परिणाम का सामना नहीं करना पड़ेगा या आप समूह के अन्य सदस्यों के संबंध में परिसमापक या अटॉर्नी-जनरल डिपार्टमेंट की किसी भी निर्णय से बाध्य नहीं होंगे।

20. इस पर ध्यान दें कि परिसमापक के पास दावा दायर करने और आवेदन जमा करने के लिए सख्त समय सीमा लागू होती है, ताकि एफईजी योजना का लाभ उठा सकें। इस मामले में हमने मूल्यांकन किया है कि एफईजी योजना का लाभ उठाने के लिए सभी आवेदन 1 जुलाई 2022 तक जमा किए जाने चाहिए। इसके बाद होने वाली देरी को इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि दावे को "देर से" प्रस्तुत किया गया था। अगर आप इन समय-सीमाओं (या किसी अन्य प्रासंगिक मामले) के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो हम आपको सुझाव देते हैं कि आप हमसे संपर्क करें या अपने वकील से स्वतंत्र कानूनी सलाह लें।
21. जैसा कि ऊपर बताया गया है, अगर आपको परिसमापन प्रक्रिया और/या एफईजी प्रक्रिया (यदि योग्य हो) में Shine Lawyers की सहायता चाहिए, तो हम अनुरोध करते हैं कि आप **बुधवार, 15 दिसंबर, 2021** तक फॉर्म भर दें, ताकि आपके दावे की समय सीमा समाप्त न हो। फॉर्म को <https://ISGMclassaction.shine.com.au/Registration> पर एक्सेस किया जा सकता है।
22. अगर इस नोटिस के संबंध में आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या संबंधित फॉर्म को पूरा करने के संबंध में कोई सहायता चाहिए, तो कृपया हमारे आईएसजीएम क्लास एक्शन टीम से **1800 325 172** पर संपर्क करें या isgmlegal@shine.com.au पर ईमेल करें।